



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 434)

पटना, बुधवार, 8 अप्रील 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

7 अप्रील 2015

एस0ओ0 53, दिनांक 8 अप्रील 2015—बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा-7 की उप-धारा (2), एवं धारा-9 की उपधाराएँ (1) एवं (2) तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-राज्यपाल ने -

- (i) वर्तमान लखीसराय न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने; एवं
- (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है;
- (iii) इसका मुख्यालय शेखपुरा में होगा;
- (iv) जिला एवं सत्र न्यायालय, शेखपुरा, जिला शेखपुरा की राजस्व-सीमा के भीतर उद्भूत मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से करेगा तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 से नहीं रह जाएगी।

(सं0सं0 ए0/एक्ट-5/2012/2429/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

7 अप्रैल 2015

एसओ 54, एसओ 53, दिनांक 8 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/एक्ट-5/2012/2429/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 7th April 2015

S.O. 53 dated 8th April 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub-Section (2) of Section 7 and Sub-Section (1) and (2) of Section 9 and Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act-2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the Subject, the Governor of Bihar is pleased to-

- (i) constitute a separate Judicial District from present Lakhisarai Judicial District; and
- (ii) establish a Court of District and Sessions Judge, Sheikhpura;
- (iii) the Headquarters will be at Sheikhpura.
- (iv) The District and Sessions Court, Sheikhpura will exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue limits of Sheikhpura District with effect from 13th April, 2015 and District and Sessions Judge, Lakhisarai will cease to have jurisdiction on such matter from 13th April, 2015.

(F.No. A/Act-5/2012/2429/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

Akhilesh Kumar Jain,*Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 434-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>